

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 5278/2022

सोहन लाल यादव

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग जयपुर, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंगोद खुर्द, गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
4. श्री महेश कुमार सैनी, वरिष्ठ अध्यापक, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंगोद खुर्द, गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.10.2022

आदेश की दिनांक : 17.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य
एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंगोद खुर्द, गोविन्दगढ़, जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थागण ने आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1 व 2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुर्जरीवास, कोटकासिम, जिला अलवर निजी प्रत्यर्थागण संख्या 4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता एवं राजहित के केवल मात्र निजी प्रत्यर्थागण संख्या 4 को समंजित (Accommodate) करने के उद्देश्य से दूरस्थ स्थान पर किया गया है। निजी प्रत्यर्थागण संख्या 4

का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर कर दिया गया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के माताजी जिनकी उम्र 66 वर्ष है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिनका ईलाज निरन्त जयपुर में चल रहा है, जिनकी समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंगोद खुर्द, गोविन्दगढ़, जिला जयपुर में कार्यरत रहने के आदेश फरमाये जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनु गीलन कर मनन किया।
5. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी एक सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के

लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम. एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य